

# प्रेस नोट थाना लम्भुआ



सराहनीय कार्य दिनांक 02.06.2021 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर

दिनांक 02.06.2021 को थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों तथा जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी लम्भुआ महोदय के निर्देशन में तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में मय हमराह व0उ0नि0 दयाशंकर मिश्रा, का0 आमोद मिश्रा, का0 दीपक कुमार, म0का0 सुशीला गौतम की संयुक्त टीम के द्वारा मु0अ0सं0 242/2021 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामलाल नि0 ग्राम परसरामपुर चौबनवां थाना लम्भुआ सुलतानपुर व अभियुक्ता कमला देवी पत्नी चन्द्रपाल नि0 परसरामपुर चौबनवा थाना लम्भुआ सुलतानपुर को रेलवे स्टेशन कस्बा लम्भुआ के बगल बाग में से गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में अभियुक्तगण ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि अभियुक्त अजय व अभियुक्ता कमला पडोसी हैं तथा 8-10 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मृतक चन्द्रपाल दोनो के सम्बन्धों में बाधक बन रहा था। जिसके कारण कमला देवी के षडयन्त्र पर अभियुक्त अजय द्वारा सुनियोजित तरीके से मृतक चन्द्रपाल की बसुली से सिर पर वारकर हत्या कर दिया गया। अभियुक्त अजय की निशादेही पर मृतक का एक पैर का जूता व अभियुक्ता कमला की निशादेही पर अभियुक्त अजय द्वारा घटना के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े बरामद किया गया। इस प्रकार हत्या जैसे जघन्य अपराध का अन्दर 48 घंटे सफल अनावरण कर अभियुक्त व अभियुक्ता की गिरफ्तारी करने पर जनमानस द्वारा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अपराधी — 1. अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रामलाल नि0 ग्राम परसरामपुर चौबनवां

थाना लम्भुआ सुलतानपुर

2. अभियुक्ता कमला देवी पत्नी चन्द्रपाल नि0 परसरामपुर चौबनवा थाना लम्भुआ सुलतानपुर

गिरफ्तारी का स्थान — रेलवे स्टेशन कस्बा लम्भुआ के बगल बाग में से

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम —

1. थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाण्डेय
2. व0उ0नि0 दयाशंकर मिश्रा
3. का0 आमोद मिश्रा
4. का0 दीपक कुमार
5. म0का0 सुशीला गौतम

बरामदगी.....मृतक चन्द्रपाल के एक पैर का जूता व अभियुक्त अजय द्वारा घटना के समय पहने हुए रक्त रंजित कपड़े।